

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

24421-MJ

**B.Sc. IV SEMESTER [MAIN/ATKT] EXAMINATION
JUNE - JULY 2024**

**ECONOMICS
[Money, Banking and Public Finance]
[Major Subject]**

[Max. Marks : 60]

[Time : 3:00 Hrs.]

Note : All THREE Sections are compulsory. Student should not write any thing on question paper.
नोट : सभी तीन खण्ड अनिवार्य हैं। विद्यार्थी प्रश्न-पत्र पर कुछ न लिखें।

[Section - A]

This Section contains **Multiple Choice Questions**. Each question carries **1 Mark**. All questions are compulsory.

इस खण्ड में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Q. 01 Money supply consists of -

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) Currency | b) Deposits |
| c) Currency and Deposits both | d) None of these |
- मुद्रा आपूर्ति में शामिल है -
- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| a) मुद्रा | b) जमा |
| c) मुद्रा एवं जमा दोनों | d) उपरोक्त में से कोई नहीं |

Q. 02 Objective of credit control by RBI is -

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| a) Monetary Stability | b) Motivate to develop economically |
| c) Price stability | d) All of these |
- रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण का उद्देश्य है -
- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| a) मौद्रिक स्थिरता | b) आर्थिक विकास को प्रेरित करना |
| c) कीमत में स्थिरता लाना | d) उपरोक्त सभी |

Q. 03 GST was applied in India in which year -

- | | |
|------------------|--------------------|
| a) 1st May 2017 | b) 1st July 2017 |
| c) 1st June 2018 | d) 1st August 2017 |
- भारत में GST लागू हुआ -
- | | |
|-----------------|-------------------|
| a) 1st मई 2017 | b) 1st जुलाई 2017 |
| c) 1st जून 2018 | d) 1st अगस्त 2017 |

P.T.O.

Q. 04 Deficit Financing Creates -

- | | |
|------------------------|------------------|
| a) Depression | b) Inflation |
| c) Financial Stability | d) None of these |

घाटे का वित्त उत्पन्न करता है -

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a) मंदी | b) मुद्रा स्फीति |
| c) वित्तीय स्थिरता | d) उपरोक्त में से कोई नहीं |

Q. 05 Who contributed principles of taxation -

- | | |
|-------------|---------------|
| a) Dalton | b) Adam Smith |
| c) Robinson | d) Keynes |

कराधान (करारोपण) के सिद्धांत किसने दिये -

- | | |
|-------------|--------------|
| a) डॉल्टन | b) एडम स्मिथ |
| c) राबिन्सन | d) किंस |

[Section - B]

This Section contains **Short Answer Type Questions**. Attempt **any five** questions in this section in 200 words each. Each question carries **7 Marks**.

इस खण्ड में लघुउत्तरीय प्रश्न हैं। इस खण्ड में किन्हीं पांच प्रश्नों को हल करें। प्रत्येक उत्तर 200 शब्दों में लिखें। प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है।

Q. 01 Define money and discuss the functions of money.

मुद्रा की परिभाषा दीजिये तथा मुद्रा के कार्यों की विवेचना कीजिये।

Q. 02 Discuss the process of credit creation by commercial banks.

व्यापारिक बैंकों द्वारा साख का निर्माण किस प्रकार होता है ?

Q. 03 What are the advantages of E-Banking services to customers.

ग्राहकों के लिये ई-बैंकिंग सेवाओं के लाभ व सुविधाओं को समझाइये।

Q. 04 Discuss the importance of Public Finance.

लोक वित्त का महत्व समझाइये।

Q. 05 What is High Powered Money ?

उच्च स्तरीय मुद्रा या शक्तिशाली मुद्रा क्या है ?

Cont. . .

Q. 06 Briefly discuss the principle of maximum social advantage.

अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की विवेचना कीजिये।

Q. 07 What is Deficit Financing ? State its objectives.

घाटे की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं ? इसके उद्देश्य बताइये।

Q. 08 Write a short note on GST (Goods and Service Tax).

भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर संक्षिप्त में एक लेख लिखिये।

[Section - C]

This section contains **Essay Type Questions**. Attempt **any two** questions in this section in 500 words each. Each question carries **10 marks**.

इस खण्ड में दीर्घउत्तरीय प्रश्न हैं। इस खण्ड में किन्हीं दो प्रश्नों को हल करें। प्रत्येक उत्तर 500 शब्दों में लिखें। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है।

Q. 09 Compare Fischer's quantity theory with Cambridge Equation.

फिशर के परिणाम सिद्धांत की तुलना कैम्ब्रिज समीकरण से करें।

Q. 10 State the quantitative method of credit control by RBI.

रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण के परिमाणात्मक तरीके को समझाइये।

Q. 11 Discuss the principles of Public Expenditure.

सार्वजनिक व्यय के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिये।

Q. 12 Discuss Indian Taxation system and its salient features.

भारतीय कर प्रणाली की मुख्य विशेषताओं को समझाइये।

○